



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 28 दिसम्बर, 2019

पौष 7, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2769/9-1-2019-26 टी0ए0-19

लखनऊ, 28 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

प0आ0-435

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 4049-टी/तैतीस-23-टी(1)-58, दिनांक 17 अप्रैल, 1961 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत-बबेरू, जिला बाँदा के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिए जिस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजे जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 4049-टी/तैतीस-23-टी(1)-58, दिनांक 17 अप्रैल, 1961 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग नौ-'क' के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत, बबेरू, जिला बाँदा के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

नगर पंचायत, बबेरू, जिला बाँदा के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र :-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	दिशा	गाटों का विवरण
1	बबेरू	उत्तर	569, 570, 577, 578, 579, 583, 584, 585, 586, 588, 587, 591, 588, 589, 590, 596, 597, 598, 600, 599, 595, 594, 593, 592, 604, 605, 606, 607, 611, 610, 608, 609, 617, 621, 619, 618, 582, 581, 580, 577, 620, 634, 632, 633, 630, 629, 628, 651, 627 626, 625, 624, 623, 622, 615, 614, 613, 612, 603, 602, 601, 994, 982 983, 980, 970, 966, 967, 965, 968, 969, 963, 962, 961, 958, 957, 956, 954, 953, 948, 985, 984, 986, 987, 988, 992, 993, 990, 991, 989, 945, 944, 942, 943, 940, 941, 938, 788, 937, 936, 935, 934, 933, 952, 951, 950, 932, 939, 946, 947, 955
2	बबेरू	दक्षिण	1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 1886 1887 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1917, 1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1910, 1908, 1909, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1856, 1857, 1855, 1853, 1852, 1851, 1850, 1854, 1845, 1844, 1843, 1830, 1846, 1849, 1847, 1848, 1826, 1827, 1828, 1829, 1776, 1773, 1769, 1771, 1772, 1773, 1782, 1780, 1781, 1777, 1779, 1781, 1782, 1778, 1784, 1785, 1786, 1787, 1783, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1778, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804 1805 1806, 1807 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 1923, 1924 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1974, 1975, 1976, 1977 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1992, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2059, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128 ,2129, 2130, 2133, 2132, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2152, 2153, 2154 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185,

			2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239
3	बबेरु	पूर्व	2661, 2662, 2683, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2680, 2681, 2682, 2833, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 3002, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3080, 677, 676, 675, 674, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 673, 672, 671, 670, 669, 667, 668, 665, 664, 663, 662, 661
4	बबेरु	पश्चिम	911, 910, 909, 908, 907, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 898, 896, 895, 894, 897, 893, 892, 890, 891, 889, 888, 887, 886, 885, 884, 883, 881, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 870, 871, 872, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 801, 802, 803, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 842, 843, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 856, 874, 878, 877, 876, 875, 847, 848, 849, 846, 845, 844, 840, 841, 838, 836, 835, 834, 837, 839, 829, 830, 831, 833, 832, 811, 812, 818, 819, 820, 817, 816, 815, 813, 814, 810, 808, 807, 806, 805, 804, 800, 809, 798, 799, 797, 796, 795, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1480, 1481, 1482, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1483, 1488, 1485, 1486, 1487, 1490, 1491, 1493, 1494, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1469, 1489, 1488, 1474, 1860, 1861, 1858, 1859, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 4668, 1869, 1870, 1871, 1872

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2769/IX-1-2019-26 T.A.-19, dated December 28, 2019 :

No. 2769/IX-1-2019-26 T.A.-19

Dated Lucknow, December 28, 2019

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and in partial modification of notification no. 4049-T/XXXIII-23-T(1)-58, dated April 17, 1961 and other previous notifications issued in this behalf including the areas specified in the Schedule-1 below in the transitional area of Nagar Panchayat, Baberu in district Banda, is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Babu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within 15 days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

IN exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), and in partial modification of notification no. 4049-T/XXXIII-23-T(1)-58, dated April 17, 1961 and other previous notifications issued in this behalf the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Baberu in district Banda for the purposes of Part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat, Baberu in district Banda :-

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	Baberu	North	569, 570, 577, 578, 579, 583, 584, 585, 586, 588, 587, 591, 588, 589, 590, 596, 597, 598, 600, 599, 595, 594, 593, 592, 604, 605, 606, 607, 611, 610, 608, 609, 617, 621, 619, 618, 582, 581, 580, 577, 620, 634, 632, 633, 630, 629, 628, 651, 627, 626, 625, 624, 623, 622, 615, 614, 613, 612, 603, 602, 601, 994, 982, 983, 980, 970, 966, 967, 965, 968, 969, 963, 962, 961, 958, 957, 956, 954, 953, 948, 985, 984, 986, 987, 988, 992, 993, 990, 991, 989, 945, 944, 942, 943, 940, 941, 938, 788, 937, 936, 935, 934, 933, 952, 951, 950, 932, 939, 946, 947, 955
2	Baberu	South	1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1917, 1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1910, 1908, 1909, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1856, 1857, 1855, 1853, 1852, 1851, 1850, 1854, 1845, 1844, 1843, 1830, 1846, 1849, 1847, 1848, 1826, 1827, 1828, 1829, 1776, 1773, 1769, 1771, 1772, 1773, 1782, 1780, 1781, 1777, 1779, 1781, 1782, 1778, 1784, 1785, 1786, 1787, 1783, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1778, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814,

			1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1992, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2059, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2133, 2132, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239
3	Baberu	East	2661, 2662, 2683, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2680, 2681, 2682, 2833, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 3002, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069,

			3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3080, 677, 676, 675, 674, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 673, 672, 671, 670, 669, 667, 668, 665, 664, 663, 662, 661
4	Baberu	West	911, 910, 909, 908, 907, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 898, 896, 895, 894, 897, 893, 892, 890, 891, 889, 888, 887, 886, 885, 884, 883, 881, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 870, 871, 872, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 801, 802, 803, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 842, 843, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 856, 874, 878, 877, 876, 875, 847, 848, 849, 846, 845, 844, 840, 841, 838, 836, 835, 834, 837, 839, 829, 830, 831, 833, 832, 811, 812, 818, 819, 820, 817, 816, 815, 813, 814, 810, 808, 807, 806, 805, 804, 800, 809, 798, 799, 797, 796, 795, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1480, 1481, 1482, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1483, 1488, 1485, 1486, 1487, 1490, 1491, 1493, 1494, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1469, 1489, 1488, 1474, 1860, 1861, 1858, 1859, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 4668, 1869, 1870, 1871, 1872

By order,
 MANOJ KUMAR SINGH,
Pramukh Sachiv.